

@shahjahanpurpol

प्रेस नोट-जनपद शाहजहाँपुर दिनांक 10.08.2022

थाना गढिया रंगीन को मिल बडी कामयाबी,

पशु चोरी करने वाले 02 अन्तर्जनपदीय शातिर चोरो को असलहा सहित किया गिरफ्तार ।

श्री एस आनन्द, पुलिस अधीक्षक जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्र एवं अवैध तस्करो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अनुक्रम में श्री संजीव कुमार बाजपेयी, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तिलहर के निर्देशन में थाना गढिया रंगीन पुलिस को बडी कामयाबी हासिल हुई ।

दिनांक 10.08.2022 को श्री सुन्दर लाल, थानाध्यक्ष गढिया रंगीन के नेतृत्व में थाना गढिया रंगीन की पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर समय 20.30 बजे 02 अभियुक्तो 1. सचिन 2. राजकुमार को जगतियापुर चौराहा से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 02 भैंस, 02 देशी तमंचा 12 बेर व 03 जिन्दा कारतूस 12 बेर बरामद हुए । इस सम्बन्ध में थाना गढिया रंगीन पर सुसंगत धाराओ में अभियोग करते हुए अभियुक्तो को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

घटनास्थल, दिनांक व समय-

जगतियापुर चौराहा से, दिनांक 10.08.2022 समय 20.30 बजे

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. सचिन पुत्र मुकेश जाति कश्यप ग्राम हजरतपुर थाना हजरतपुर जनपद बदायूं
2. राजकुमार पुत्र मोरपाल निवासी ग्राम हजरतपुर थाना हजरतपुर जनपद बदायूं

बरामदगी का विवरण-

1. 02 भैंस जिसकी कीमत लगभग क्रमश 65000-60000 कुल 125000 रुपये बनाम सचिन व राजकुमार
2. 01 अदद देशी तमन्चा 12 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बनाम सचिन
3. 01 अदद देशी तमन्चा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बनाम राजकुमार

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

1. मु0अ0सं0 354/2022 धारा 41 CrPC व धारा 411/413 IPC
2. मु0अ0सं0 355/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम सचिन
3. मु0अ0सं0 356/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम राजकुमार

आपराधिक इतिहास सचिन-

1. मु0अ0सं0 100/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना हजरतपुर जिला बदायु

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त 1. सचिन 2. राजकुमार ने पूछताछ में बताया कि साहब ये दोनो भैंसे हम दोनो ने ग्राम चितरी थाना हजरतपुर क्षेत्र से दिनांक 05.08.2022 को नदी के किनारे से चुरा कर लाये थे जिन्हे हम अभी तक पुलिस के डर से ईधर उधर छिपा कर रखे हुये थे । आज हम लोग बेचने के लिये बरेली ले जा रहे थे कि आपने पकड लिया । हम लोग रामगंगा नदी के किनारे घूमते रहते है और जो भी भैंसे चरती रहती है मौका देखकर चुपके से उनको चोरी कर वहा से ले आते है और बाहर ले जाकर बेच लेते है तथा जो भी पैसा मिलता है उसे हम लोग आपस में बांट लेते है ।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. थानाध्यक्ष सुन्दरलाल वर्मा थाना गढ़िया रंगीन शाह0
2. SI श्री यादवेन्द्र सिंह थाना गढ़िया रंगीन शाह0
3. हे0का0 342 रणवीर सिंह थाना गढ़िया रंगीन शाह0
4. का0 1826 गौरव शर्मा थाना गढ़िया रंगीन शाह0
5. का0 1848 देवेन्द्र थाना गढ़िया रंगीन शाह0
6. का0 83 सूरजपाल सिंह थाना गढ़िया रंगीन शाह0